



प्रेस नोट

## नक्सली गतिविधियों में संलिप्त 2 व्यक्ति गिरफ्तार

उ.प्र. में भी तीन स्थानों पर 6 लोगों से पूछताछ

दिनांक : 8 जुलाई, 2019

उ.प्र. एटीएस को विगत कई दिनों से सूचना मिल रही थी कि नक्सली विचारधारा के कुछ लोगो द्वारा राष्ट्रविरोधी गतिविधियाँ की जा रही है। इस सूचना को पुष्ट करने के उपरांत आज ATS द्वारा 4 स्थानों पर कुल 8 व्यक्तियों से पूछताछ की गई, तलाशी ली गई और फोन-लैपटॉप आदि कब्जे में लिए गए।

### कृत कार्यवाही :

- उत्तर प्रदेश में तीन स्थानों पर कुल 6 लोगों से पूछताछ की गई, अभिलेख आदि बरामद किए गए और फ़िलहाल छोड़ा गया। इन अभिलेखों के अध्ययन के अनुसार अग्रिम क़ानूनी कार्रवाई की जाएगी. (स्थान: कानपुर -1, देवरिया- 2)।

- विकास कुंज, शाहपुरा, भोपाल, मध्य प्रदेश से दो अभियुक्तों (दम्पति) को पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया-

1. मनीष श्रीवास्तव पुत्र श्री मंगला प्रसाद श्रीवास्तव

2. वर्षा उर्फ़ अनीता श्रीवास्तव पत्नी मनीष श्रीवास्तव

मूल निवासी - कुरनी पो०-समाधगंज, मछलीशहर जनपद-जौनपुर, उ.प्र.  
हाल पता - श्रीनिवास सिंह, 40 विकास कुञ्ज, त्रीलंगा, भोपाल, म.प्र.

- दोनों अपनी पहचान छुपा कर भोपाल में रह रहे थे। अभियुक्त मनीष और इसकी पत्नी सीमा ने कई फर्जी दस्तावेज भी बनवाए हैं जिनका प्रयोग कर रहे थे।
- फ़िलहाल कूट रचना के आरोप में इनकी रिमांड ली जाएगी और बरामद साहित्य व डिजिटल मीडिया के अनुसंधान के बाद सुसंगत धाराओं में कार्यवाही की जाएगी।
- ज्ञातव्य है कि मनीष, पूर्व में देश विरोधी गतिविधियों के आरोप में गिरफ्तार अभियुक्त सीमा आजाद का भाई है।
- पूछताछ कर छोड़े गए 6 लोगों द्वारा प्रयोग में लाए जा रहे लैपटॉप, मोबाइल, पेन ड्राइव आदि का डाटा एक्सट्रैक्शन किया गया है जिसके आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।



अभियुक्तों के चित्र

### अग्रिम कार्यवाही :

- पूछताछ व इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से प्राप्त जानकारियों के आधार पर अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।
- डाटा एक्सट्रैक्शन की कार्यवाही से प्राप्त जानकारी के अनुसार ही अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी।
- यह जानकारी की जाएगी कि इनके फर्जी दस्तावेज तैयार करने में किन लोगों ने सहयोग किया है।

गिरफ्तार दोनों अभियुक्तों को माननीय न्यायालय (भोपाल) के समक्ष प्रस्तुत कर ट्रांजिट रिमांड लेकर लखनऊ लाया जाएगा।

~असीम अरुण  
ADG UP ATS.



अभियुक्तों के हाई रेजोल्यूशन फोटो के लिए यहाँ क्लिक करें :

[https://drive.google.com/drive/folders/1\\_nprOXqjyDAuNBIJHzlZ2kq5SaU-70CN?usp=sharing](https://drive.google.com/drive/folders/1_nprOXqjyDAuNBIJHzlZ2kq5SaU-70CN?usp=sharing)